



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262243  
CG-DL-E-03042025-262243

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/ चैत्र 12, 1947

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/ CHAITRA 12, 1947

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2025

फा. सं. आर-12/16/9/2022-नीति-हितलाभ-II.— कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में आगे और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, एतद्वारा उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं:

- कोई भी आपत्ति या सुझाव, जो ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया होता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।
- आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्री दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (हितलाभ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकते हैं (ई-मेल: [ac-benefit@esic.nic.in](mailto:ac-benefit@esic.nic.in)).

### प्रारूप विनियम

- इस विनियम को कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में, एक नया विनियम 103 एए निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:-  
2312 GI/2025

**विनियम 103 एए: सेवानिवृत्त लाभार्थियों को चिकित्सा हितलाभ**

1. कर्मचारी जिसके संबंध में अंशदान दिनांक 01.04.2012 के बाद कम से कम पांच वर्षों के लिए देय है या था और बाद में वेतन सीमा से अधिक होने के कारण अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त नहीं किया गया है तथा दिनांक 01.04.2017 को या उसके बाद प्रति माह तीस हजार रुपये तक के वेतन के साथ, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता/होती है, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होता/होती है, या समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता/लेती है, स्वयं और अपने पति या पत्नी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र होगा/होगी :
  - i. निगम द्वारा अधिसूचित योजना की अन्य शर्तों को पूरा करता/करती हो।
  - ii. नियोक्ता से उस प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करवाना जिसे इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
  - iii. अंशदान का उस दर और रीति से भुगतान करना जिसे निगम द्वारा योजना में यथाविनिर्दिष्ट किया गया हो।
 बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति जो कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर रहा/रही है, भी योजना की अन्य शर्तों को पूरा करने और अंशदान का उस दर और रीति जिसे निगम द्वारा योजना में यथाविनिर्दिष्ट किया गया हो, से भुगतान करने पर स्वयं और अपने पति /पत्नी के लिए उप-विनियम (1) के अनुसार चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा/ होगी।
2. नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति को मांगे जाने पर उप विनियम (1) में संदर्भित अनुसार प्रमाणपत्र जारी करेगा।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो. व वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./05/2025-26]

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2025

**F.No. R-12/16/9/2022-Policy-Bft-II.**—The following draft of certain regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred under section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public:-

1. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft regulation within the period specified above, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation.
2. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Deepak Joshi, Insurance Commissioner (Benefit) Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi- 110002 (e.mail: ac-benefit@esic.nic.in).

**DRAFT REGULATIONS**

1. This Regulation may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2025.
2. In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, a new Regulation 103 AA shall be inserted as under:

**Regulation 103 AA: Medical benefit to retired beneficiaries**

1. An employee in respect of whom contribution is or was payable for not less than five years after 01.04.2012 and who subsequently ceased to be covered under the Act due to exceeding the wage limit, superannuating on attaining the age of superannuation, retiring under a Voluntary Retirement Scheme or taking premature retirement with wages up to rupees thirty thousand per month on or after 01.04.2017, shall be eligible to receive medical benefit for self and his/her spouse, subject to:

- i. the fulfilment of other conditions of the scheme notified by the Corporation
- ii. production of certificate from the employer in the form which may be specified by the Director General for the purpose.
- iii. the payment of contribution at the rate and manner as notified in the scheme by the Corporation

Provided that an Insured person who is availing medical benefit under Rule 60 and 61 of ESI (Central) Rules, 1950 shall also be eligible to receive medical benefit as per sub-regulation (1) for self and his/her spouse on fulfilment of other conditions of the scheme and payment of contribution at the rate and manner as notified in the scheme by the Corporation.

2. An employer shall, on demand, issue the certificate as referred to in sub-regulation (1) to person employed by him.

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.- III /4/Exty./05/2025-26]